

# महंत राजा दिग्विजय दास स्मृति राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता में राधिका, सोनिका और यामिनी ने मारी बाजी

राजनांदगांव। शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के हिन्दी विभाग के तत्वावधान में आयोजित महंत राजा दिग्विजय स्मृति राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता-2017 के परिणाम घोषित कर दिए गये हैं। महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष एवं महापौर श्री मधुसूदन यादव की प्रेरणा एवं प्राचार्य डॉ. आर.एन. सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित इस प्रतियोगिता की जानकारी देते हुए विभागाध्यक्ष डॉ. शंकर मुनि राय एवं प्रतियोगिता के संयोजक डॉ. चन्द्रकुमार जैन ने बताया कि इस वर्ष शासकीय महाविद्यालय डोंगरगांव की प्रतिभागी कु. राधिका तिवारी ने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कॉन्फ्लूएन्स कालेज राजनांदगांव की कु. सोनिका श्रीवास्तव तथा शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय की छात्रा कु. यामिनी साहू ने क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय स्थान अर्जित किया है। विशेष पुरस्कार के लिए डॉ.वा.वा.पाटणकर पी.जी. कन्या कालेज दुर्ग की कु. तृप्ति नायर, बीसीएस पी.जी. कालेज धमतरी के सोहन लाल, कॉन्फ्लूएन्स कालेज राजनांदगांव की नीलम चतुर्वेदी तथा शासकीय चन्द्रलाल चन्द्राकर कालेज धमधा की कु. निर्विन्ध्या वैष्णव का चयन किया गया है।

उक्त जानकारी देते हुए संयोजक डॉ. चन्द्रकुमार जैन ने आगे बताया कि दिग्विजय महाविद्यालय की इस प्रतिष्ठा पूर्ण प्रतियोगिता का यह दूसरा वर्ष है। इसके अंतर्गत महाविद्यालय के आगामी हीरक जयंती समारोह में प्रथम विजेता को पांच हजार रुपये तथा प्रशस्ति पत्र, द्वितीय पुरस्कार तीन हजार रुपये तथा प्रशस्ति पत्र, तृतीय पुरस्कार दो हजार रुपये प्रशस्ति पत्र के अलावा घोषित चार विशेष पुरस्कार प्रत्येक एक हजार रुपये एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। इस वर्ष भी इस प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश से प्रविष्टियां प्राप्त हुईं। संस्थाओं एवं प्रतिभागियों ने सराहनीय उत्साह का प्रदर्शन किया। प्राचार्य डॉ. आर.एन. सिंह एवं पूरे महाविद्यालय परिवार ने विजेता प्रतिभाओं को बधाई दी है।